

March 27, 2023

The National Stock Exchange of India Ltd

Corporate Communications Department "Exchange Plaza", 5th Floor, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051

Scrip Symbol: RELIGARE

BSE Limited

Corporate Services Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code: 532915

Phone: +91-11- 4472 5676

Phone: +91-120-635 5040

Sub: Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspapers cuttings i.e. Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) dated March 26, 2023 in which result related to Postal Ballot Notice dated February 10, 2023 have been published.

This is for your kind information and record.

For Religare Enterprises Limited

Reena Jayara Company Secretary

Encl.: as above

Govt to hold

nationwide

on April 10, 11

AMID RISING CASES of Covid 19 and seasonal influenza, the

government is planning a

nationwide mock drill on April

10 and 11 to take stock of hos-

issued by the Union health min

istry and the ICMR on Saturday,

both public and private health

facilities in all districts are

According to a joint advisory

pital preparedness.

Covid drill

GOVT VS JUDICIARY

Differences don't mean confrontation, says Rijiju

'It sends a wrong message across the world'

PRESS TRUST OF INDIA Madurai, March 25

DENYING ANY CLASH between the government and judiciary as speculated in the media, Union law and justice minister Kiren Rijiju on Saturday contended that differences were inevitable in a democracy but they should not be construed as confrontation.

The minister inaugurated the chief judicial magistrate court, Mayiladuthurai, in the presence of Chief Justice of India Justice DY Chandrachud, Tamil Nadu chief minister MK



MK Stalin in Madurai on Saturday

Stalin and acting Chief Justice of Madras High Court Justice T Raja here. "We have differences, but it doesn't mean there is confrontation. It sends a wrong message across the

world. I want to make it clear that there is no problem between different organs of the state. There are signs of robust democratic actions, which are not a crisis," he emphasised.

Pointing to some media reports of alleged differences between the government and the Supreme Court or the legislature and judiciary, the Union minister said, "We must understand that we are in a democracy. There are bound to be certain differences in terms of some outlook but you can't have conflicting positions. This doesn't mean confrontation. We are the largest democracy in the world."The Centre would support the Indian judiciary to be independent, he said, and called upon the bench and the bar -- being two sides of the same coin -- to work together to ensure that the court complex is not divided. "One can't exist without the other. Court must have proper decorum and conducive atmosphere."

CJI: Absymal women-men ratio in legal profession

PRESS TRUST OF INDIA Madurai, March 25

CHIEF JUSTICE OF India DY Chandrachud on Saturday flagged the "abysmal" womento-men ratio in the legal profession and called for ensuring equal opportunities for women, asserting that there was no dearth of young, talented women lawyers.

He was speaking at an event held here to mark the foundation-stone-laying ceremony for the Additional Court Buildings in the District Court campus and the inauguration of the District and Sessions Court and that of the Court of the Chief Judicial Magistrate at Mayiladuthurai.

The event was attended by Union law minister Kiren Rijiju and Tamil Nadu chief minister MK Stalin, among others.

Rijiju touched upon the alleged disagreements between the government and the judiciary and said it didn't mean



that there was a confrontation between them. Stalin requested the CJI to ensure social justice in the appointment of judges to the high courts and the Supreme Court.

In his address, Justice Chandrachud said recruiting chambers were being "sceptical" about employing women, assuming that their "familial" responsibilities would come in

legal profession, Justice Chandrachud said, "Statistics inform us that for 50,000 male enrolments in Tamil Nadu, there are only 5,000 female enrolments.""The legal profession is not an equal-opportunity provider for women, and the statistics are the same all over the country," he said. "The phase is changing. In the

the way of their profession.

Citing the "abysmal" women-to-men ratio in the

progress in life.

expected to participate in the exercise aimed at taking stock of recent recruitment in the district judiciary, over 50% are availability of medicines, hospiwomen. But we have to create tal beds, medical equipment and medical oxygen. equal opportunities for women so that they do not fall The exact details of the mock drill shall be communi by the wayside because of the fact that they undertake mulcated to the states in the virtual tifold responsibilities as they meeting scheduled on March 27, the advisory stated. "Chambers are sceptical

The advisory highlighted about recruiting young that in the past several weeks, women advocates. The reason Covid-19 testing has declined for that is not a lack of young in some states and the current testing levels are insufficient talented women," he said. "There is no lack of talented as compared to the standards prescribed by WHO. — PTI young women."

From the Front Page

FM urges public sector banks to be more vigilant

She also emphasised on adherence to the regulatory framework by focusing on risk management, diversification of deposits and assets base.

Managing directors and CEOs of the banks also informed the minister in the meeting that they follow the best corporate governance practices, adhere to regulatory norms, ensure prudent liquidity management, and continue to focus on having robust asset-liability and risk management. They said they remain vigilant about developments in the global banking sector and are taking steps to protect themselves from any potential financial shock.

"All the major financial parameters indicate stable and resilient PSBs with robust financial health," the CEOs

Particular(s)

Assent

Dissent

Date: March 26, 2023

Place: New Delhi

were quoted saying, in an official statement. Open discussions were held on the global scenario comprising the failure of the Silicon Valley Bank and the Signature Bank, along with issues leading to the crisis in Credit Suisse.

"The finance minister reviewed the exposure of PSBs to this developing and immediate external global financial stress from both the short and the long-term perspectives, the statement said.

PSBs must look at business models closely to identify stress points, including concentration risks and adverse exposures, she said, adding that she also urged them to use this opportunity to frame detailed crisis management and communication strategies. The minister also advised lenders to remain vigilant about the interest rate risks and regularly undertake stress tests.

Before the meeting, the government had sought

RELIGARE ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 1407, 14th Floor, Chiranjiv Tower, 43,

Nehru Place, New Delhi-110019

CIN: L74899DL1984PLC146935, Phone: +91-11-4472-5676

Website: www.religare.com; email: investorservices@religare.com

RESULT OF POSTAL BALLOT

Pursuant to the Postal Ballot Notice dated February 10, 2023, Section(s) 108 and 110 of the Companies Act

2013 read with rules made thereunder & Secretarial Standards (SS-2) issued by the Institute of Company

Secretaries of India (ICSI) on General Meetings and in terms of the General Circular No.14/2020 dated 8th Apri

2020 read with General Circular No.17/2020 dated 13th April 2020, General Circular No.03/2022 dated 5tl May 2022 and General Circular No.11/2022 dated 28th December 2022 issued by the Ministry of Corporate

Affairs (the "MCA Circulars") and on basis of report of the scrutinizer, the result of the Postal Ballot (via

e-voting only) was announced and submitted to the stock exchanges on Friday, March 24, 2023. Summary o

Accordingly, the Resolution as set out in the Notice of Postal Ballot dated February 10, 2023 was approved by

the members with requisite majority and deemed to have been passed on Thursday, March 23, 2023 being the

///Sterlite Power

Sterlite Power Transmission Limited

Registered Office: 4" Floor, Godrej Millennium, 9 Koregaon Road, Pune, Maharashtra – 411001, India

Corporate Office: DLF Cyber Park, Block B, 9th Floor, Udyog Vihar Phase III, Sector- 20, Gurugram,

Haryana-122008, India | CIN: U74120PN2015PLC156643 | Phone: 0124 4562 000 | Fax: 0124- 4562075

Email: secretarial.grid@sterlite.com | www.sterlitepower.com

NOTICE – INTIMATION OF RECORD DATE

Members/Shareholders at the prescribed rates (plus applicable surcharge and cess) as may be notified, from time to

time. The information regarding the applicability of TDS rate for various categories of the Members/Shareholders and

documentation required, is available on the website of the Company at www.sterlitepower.com. The

Members/Shareholders are requested to provide/ upload all the necessary documents with the Registrar and Transfer

Agent at https://ris.kfintech.com/form15 or email to einward.ris@kfintech.com on or before April 07, 2023 to enable

the Company to deduct the correct TDS on the dividend payment. Please note that we would not be in a position to

hours on Friday, April 07, 2023, as per the details furnished by the Depositories for the purpose.

Company's Registrar & Share Transfer Agent (where shares are held in physical mode).

accept any communication on tax determination / deduction after April 07, 2023.

Postal Ballot

NA

NA

last date specified for the e-voting in terms of Secretarial SS-2 issued by the ICSI

Special Resolution for appointment of Ms. Preeti Madan (DIN: 08384644)

as Non-Executive Independent Director of the Company for a term of 5

consecutive years

e-Votes

10,64,99,551

2,240

10,65,01,791

details of bond portfolios of the major public sector banks, including State Bank of India and Bank of Baroda, to assess

Bank of India and finance ministry officials have maintained that the country's banking system is well protected and insulated from the recent global developments, there were concerns that the collapse of two US banks and the stressed sale of Credit Suisse to UBS could have a global contagion effect that may eventually impact

"Bank collapses in the US in the first half of March 2023 are rippling through the global financial markets. While the direct impact of this meltdown on economic activity could be present, markets are bracing up for tighter financial conditions which could present a

%age

Negligible

By Order of the Board of Directors

For Religare Enterprises Limited

By order of the Board of Directors

Ashok Ganesan

Place : Bengaluru

For Sterlite Power Transmission Limited

Company Secretary& Compliance Officer

Reena Jayara

Company Secretary

duct of disinflationary monetary policy," an article on the state of the economy in the

Indian lenders are on a much stronger footing. According to improved significantly with gross non-performing assets declining to 5.53% by December 2022 from a peak of 14.6% in March 2018. Capital adequacy ratio of PSBs improved from 11.5% in March 2015. All public sector banks are now months of the current fiscal.

The minister also highlighted that PSBs must leverage the full potential of branches opened in International Financial Services Centres in GIFT City Gujarat to identify international opportunities, including prospects related to Persons of Indian Origin (PIOs).

The meeting, which was the presentation of the Union Budfinance minister also asked of the growing economy and focus on credit outreach in states where the credit offtake is especially in North-East and eastern parts of the country.

increase brick and mortar banking presence in border and coastal areas and promote the Mahila Samman Bachat Patra announced in the Budget 2023-24 through special drives and campaigns.

also attended by Union minister of state for finance Bhagwat Kishanrao Karad and Vivek Joshi, secretary, department of financial services.

Premium sedans come to a grinding halt in India

"But in a brand-conscious market such as India, a lower-priced but equally luxurious Nissan could never match the brand value of a Mercedes-Benz."

example, at its peak, Volkswagen could sell only 1,179 units of the Passat in 2012 (of the total market size of about 2 million in that year). The first to go was the Mon-

Sales remained muted; for

deo (2006), followed by Sonata (2015), Teana (2015), Passat (2019), Accord (2020) and now Superb (2023). The Camry is soldiering on

as a hybrid car, but is now classified by the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) as a 'specialty' vehicle. During April-February FY23, it sold a decent 891 units, 180 units more than 711 sold during the same period in FY22.

Defined by SIAM as those that are 4,500-4,700 mm long and with engine size up to 2.0

litre, executive sedans—models such as Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Chevrolet Cruze, Maruti Suzuki Kizashi, Honda Civic, Volkswagen Jetta and Skoda Laura/Octavia started losing steam in the The review meeting was early 2010s. As per SIAM data, from 2011 to 2014, their sales dropped more than half from about 35,000 units in FY11 to 14,875 units in FY14.

"Executive sedans were initially hit by rising sales of highend variants of cheaper midsized sedans such as Honda City and Hyundai Verna, and later by midsize SUVs such as Mahindra XUV500 (launched in 2011) and Hyundai Creta (2015),"another auto industry veteran, who had launched an executive sedan back in 2006, told *FE*. The first executive sedan to

go was the Kizashi (2012), followed by Cruze (in 2017, with the exit of General Motors from the Indian market), Corolla (2020), Civic (2020), Elantra (2022) and now Octavia (2023), killing the executive sedan segment altogether in India. Gaurav Vangaal, associate

director, light vehicle forecasting, S&P Global Mobility, told FE that over the last few years, Indian buyers have developed an affinity towards SUVs. "SUVs have stronger road presence and are believed to be a better vehicle than sedans for Indian road conditions," he said, adding, "In the high-end segment, chauffeur-driven sedans used to be popular, but now people have started using SUVs as chauffeur-driven vehicles. All this negatively impacted sales of executive

and premium sedans." He added that globally, product development of these sedans has been slowing down as carmakers are focusing on SUVs. "The executive and premium sedans in India were

"When product development at source countries slows down, it will naturally have an impact on low-volume markets such as India."

global products," Vangaal said.

Will keep fighting for democracy, says Rahul

Gandhi said, "Even if they permanently disqualify me will do my job; if they reinstate me, I will do my job. It does not matter to me whether I am in Parliament or outside it. I have to do my 'tapasya' and I will keep doing it," he said.

The Congress leader also thanked Opposition parties for extending support to him and asserted that going forward, all of them will work together.

He alleged that for the BJPled government, "country is Adani and Adani is country". Asked about the BJP's charge that his 2019 remarks that were the centre of the defamation case were an insult to OBCs, Gandhi said he has always talked about brotherhood and the issue was not about OBCs but about Adani

and his ties the government. In response to another question, Gandhi said, "My name is not Savarkar, it is Gandhi and Gandhi never offers apology." Asked about the defamation case in which he was convicted, Gandhi said it is a legal matter and he will not comment on it.

Small-town India becoming a big draw for major hospitality players

For its premium brands, however, the focus will remain on tier 1 as well as 2 cities. During the pandemic in 2021, it launched Raffles in Udaipur and Novotel in Chandigarh. As per a recent report, a Fairmont hotel is set to open in Fagu near Shimla in 2026.

"Even if you look at the past five years, about 40% of the supply came from tier 2 cities and the rest from tier 1 and 3," said Puneet Dhawan, senior vice-president of operations, India & South Asia, Accor, speaking at the HOPE conclave. "Over the past two years, we have signed about 10 franchise deals and a lot of them have been in tier 2 and 3 cities.

India's biggest hospitality brand, Indian Hotels Company (IHCL), too, operates its 'lean luxe'brand Ginger in many tier 2 and 3 cities along with state capitals. "Ginger will change the landscape of the hotel busi ness in India," Puneet Chhatwal, MD and CEO, told FE last month in an interview. The company operates almost an equal number of Ginger hotels as the Taj brand, and the strat-

egy is set to continue.

Luxury hotel chain The Leela, too, sees an opportunity in tier 2 cities for resorts. "With increased accessibility, connectivity and better airports. there is a lot of opportunity in tier 2 and 3 cities," said Anurag Bhatnagar, chief operating officer, The Leela, adding, "India is rediscovering itself in terms of new and remote locations. So if there is a right asset great location and a great kind of positioning that can be built up, I am sure it is a great location to be considered for a luxury brand like Leela," he said at

the HOPE conclave. "About 30% of our current portfolio is in tier II and III cities," said KB Kachru, chairman emeritus and principal adviser—South Asia, Radisson Hotel Group. "We have hotels in places like Katra near Jammu, Jalandhar and many in Jammu & Kashmir. In fact, we have a huge portfolio in Kash mir," he said, adding, "It is not just us, the entire industry is looking at tier 2 and 3 cities. Kachru is also vice-president of

Increased road, rail and air connectivity too has played a prominent role here, the hospitality executives said. "Improved air and road

the Hotel Association of India.

connectivity to tier 2 towns from metropolitan cities is a big driver to this growth," said Dang of JLL. "Secondly, aspirations of the residents of such towns have increased dramatically over the years. People across the country are looking for improved leisure, F&B and hospitality choices. On back of such behavioural shift, investors and developers are encouraged to build hotels in such towns," he added.

Jatin Khanna, CEO of Sarovar Hotels & Resorts, which has a strong portfolio on non-metro markets, pointed at the rise of pilgrimage and religious tourism, a large portion of which lies in non-metro locations."I think that is set to grow and is growing faster than the leisure segment," he said at the conclave.

dent Vikramjit Singh spoke of not just tier 2 and 3 markets, but tier 4 as well. "We have hotels in places like Ihansi. Aligarh, Siliguri and Trichy. The rates there match the tier 1 cities and occupancy is higher. These markets are the dream markets," he said.

Lemon Tree Hotels' presi-

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice Jal Jeevan Mission (JJM)- WSS to Thuravur and Manjapra panchayath Phase II providing Distribution network, providing FHTCs and Road

Restoration work in Thuravur panchayath- pipeline work-1. EMD: Rs. 5.00.000/-.Tender fee: Rs. 19518.

Last Date for submitting Tender: 10-04-2023 03:00:pm. Phone: 0484-2360645, Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov. Superintending Enginee

KWA-JB-GL-6-1950-2022-23

FORM A **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SAIL-SCL KERALA LIMITED RELEVANT PARTICULARS Date of incorporation of corporate debtor 12/12/1969 Authority under which corporate debtor Corporate Identity No. / Limited Liability U27104KL1969SGC002253 Identification No. of corporate debtor Steel Nagar, P.B. No.42, Kolathara, P.O. Kozhikode Address of the registered office and principal office (if any) of corporate Kozhikode, Kerala - 673655 Notice is hereby given that the Board of Directors ("Board") of Sterlite Power Transmission Limited ("Company") at Insolvency commencement date in respect of corporate debtor its Meeting held on Friday, March 24, 2023, have considered and declared an Interim Dividend of INR 1/- per share on Estimated date of closure of insolvency 19/09/2023 each fully paid-up equity shares having face value of INR 2/- each, for the financial year 2022-23 ("Interim Dividend resolution process Name and registration number of the Anish Agarwal insolvency professional acting as Registration No. -Further notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules made IBBUIPA-001/IPP 01497/2018-2019/12256 interim resolution professional thereunder, the Board has fixed the Record Date as Friday, April 07, 2023 for the purpose of determining the Vista - D. 1101, Godrej United, Whitefield Main Road, Address and e-mail of the interim Near Phoenix Market City, Hoodi Village, Hobli, shareholders eligible for the payment of Interim Dividend 2023 on the Equity Shares of the Company for the financial resolution professional, as registered with the Board Mahadevapura, Bengaluru, Kamataka - 560048 year 2022-23. The Interim Dividend 2023 shall be paid to those Members/Shareholders whose name appears on the Email Id - ip.cispl@gmail.com Company's Register of Members as holders of Equity Shares as on the Record date i.e. Friday, April 07, 2023 and in Vista - D. 1101, Godrei United, Whitefield Main Road, Address and e-mail to be used for respect of shares held in dematerialized form, to the Beneficial Owner of the Equity Shares as at the close of business correspondence with the interim Near Phoenix Market City, Hoodi Village, Hobii, resolution professional Mahadeyapura, Bengaluru, Kamataka - 560048 Email ld - rp.sailsdkl@gmail.com The Members/Shareholders may note that the Interim Dividend 2023 will be paid electronically to those Last date for submission of claims. 06/04/2023 Classes of creditors, if any, under Members/Shareholders who have updated their bank account details. For the Members/Shareholders who have not clause (b) of sub-section (6A) of section updated their bank account details, dividend warrants / demand drafts / cheques will be sent out to their registered 21, ascertained by the interim resolution addresses. To avoid delay in receiving the dividend directly in their bank account, the Members/Shareholders are Names of Insolvency Professionals requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class) The Members/Shareholders may note that pursuant to Finance Act, 2020, dividend income being taxable in the hands 4. (a) Relevant Forms and (a) https://www.ibbi.gov.in/home/downloads of the Members/Shareholders, the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to the (b) Details of authorized representatives

are available at: Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the SAIL - SCL Kerala The creditors of SAIL - SCL Kerala Limited are hereby called upon to submit their claims with

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic mea A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. CA Anish Agarwal Registration No. - IBBI/IPA-001/IPP 01497/2018-2019/12256 Date: 26.03.2023

AFA Certification no. AA1/12256/02/191023/104616 Valid Up to 19th, October 2023

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF ABCN MANUFACTURING PRIVATE LIMITED RELEVANT PARTICULARS Name of Corporate Debtor ABCN Manufacturing Private Limited Date of incorporation of Corporate Debtor | 10th July 2014 Authority under which Corporate Debtor is Registrar of Companies, Mumbai incorporated / registered U74999MH2014PTC255975 4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor Address of the registered office and Regd. Off.: 7th Floor, Unit no.12 Center 1 Building, Wor principal office (if any) of Corporate Debtor Trade Center complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005 Head Office: 2nd Floor, Plot No. 31, Vanita Chambers Next to Yogi Executive Hotel, Opp. Mafco market Sanpada (W), Navi Mumbai-400706 Insolvency commencement date in 17/03/2023 (IRP appointed vide order dated 17/03/2023) espect of Corporate Debtor communicated to IRP by email dated 24/03/2023). Estimated date of closure of insolvency 12/09/2023 (180 days from date of admission) resolution process Dr. Anil Gunderao Anikhindi 8. Name and Registration number of the Reg. No.: IBBI/IPA-003/IP-N000106/2017-2018/1121 insolvency professional acting as Interim Resolution Professional AFA- AA3/11216/02/301122/300509 valid till 20/12/202 F-101, THE ICON, 1st Floor, 1730, Rajarampuri 6th 9. Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board Lane, KOLHAPUR-416008, Maharashtra Email: anilcost@gmail.com A.G.Anikhindi & Co., F-101, THE ICON, 1st Floor, 1730 Address and e-mail to be used for Rajarampuri 6th Lane, Kolhapur-416008, Maharashtra correspondence with the Interim Resolution Professional Email: abcnmfg.ibc@gmail.com 07/04/2023 Last date for submission of claims . Classes of creditors, if any, under clause (b) NA of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional Names of insolvency professionals identified NA to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class) 14 (a) Relevant forms available at (a) Web link: https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) Details of authorized representatives are available at: Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal has ordered the commencemen of a corporate insolvency resolution process of the ABCN Manufacturing Private Limited on 17th March 2023 and the order for appointment of Dr. Anil Gunderao Anikhindi as Interim Resolution Professional (IRP) was passed on 17/03/2023 and communicated to IRP by email from the Hon'ble NCLT

FORM A

PUBLIC ANNOUNCEMENT [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

The creditors of ABCN Manufacturing Private Limited, are hereby called upon to submit their claim with proof on or before 7th April 2023 to the interim resolution professional at the address mentione The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors ma

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Dr. Anil Gunderao Anikhind Date: 25.03.2023 Interim Resolution Professional for ABCN Manufacturing Private Limited Place: Kolhapur Regn. No.: IBBI/IPA-003/IP-N000106/2017-2018/11216

New Delhi

financialexp.epap.in

Date: March 24, 2023

Place: Gurugram

any potential risks. While both the Reserve

Indian lenders too.

limited, as it would appear at trade-off between financial stability concerns and the conRBI's monthly bulletin for March had noted. However, with various reforms measures undertaken,

official data, asset quality of public sector banks has to 14.5% in December 2022 in profit with aggregate profit of ₹66,543 crore in 2021-22 and ₹70,167 crore in first nine

first such discussion after the get 2023-24, also focussed on general banking issues and the lenders to support credit needs lower than the national average,

Lenders were also asked to

प्राधिकृत अधिका

मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटे

सरकारी नीतियों की आलोचना की तो होगी सख्त कार्रवाई

जम्मू, 25 मार्च (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को सरकार की किसी नीति या कार्रवाई की आलोचना करने वाली कोई भी सामग्री 'सोशल मीडिया' पर 'पोस्ट' करने के लिए सेवा से बर्खास्त करने समेत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा द्वारा शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर कर्मचारी आचरण नियम, 1971 में ताजा प्रावधान लागू किए गए हैं जिसमें कर्मचारियों द्वारा 'सोशल मीडिया' पर राजनीतिक या सरकारी नीतियों पर टिप्पणियां करने से रोक लगाई गई है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी किसी सामग्री (पोस्ट), ट्वीट या किसी अन्य तरीके से सरकार की किसी नीति या कार्रवाई के बारे में सोशल मीडिया पर कोई चर्चा या उसकी आलोचना नहीं करेगा। साथ ही वह किसी भी तरीके से सोशल मीडिया समुदायों या माइक्रो-ब्लाग्स' पर ऐसी किसी चर्चा या

केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर दिशानिर्देशों में कहा गया है, 'कोई भी कर्मचारी ऐसी 'पोस्ट', ट्वीट या सामग्री पोस्ट नहीं करेगा जो राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष विरोधी हो और साप्रंदायिक प्रकृति की हो या ऐसी प्रकृति वाले 'पेज या ट्विटर हैंडल या ब्लाग को सब्सक्राइब' नहीं करेगा।

आलोचना में भाग नहीं लेगा।

परिपत्र में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियों का हिस्सा होते हैं जो इन नियमों के विपरीत है। इसमें कहा गया है, 'फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य ऐप वाट्सऐप, टेलीग्राम जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल करते हुए कर्मचारियों को ऐसे विषयों पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हए देखा गया है जिन पर इन नियमों के तहत टिप्पणी करना प्रतिबंधित है।' आदेश में कहा गया है कि जम्म् कश्मीर सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1971 के अनुसार, 'ये नियम जम्मू कश्मीर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं और इन पर ऐसे आचरण से संबंधित जानकारियां दी गई है जिनकी कर्मचारियों से उनके निजी तथा पेशेवर जिंदगी में अपेक्षा की जाती है।'

खुली धमकी हैं नए

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी

(पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती

ने शनिवार को कहा कि जम्मू-

कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के

लिए जारी सोशल मीडिया

दिशानिर्देश आजीविका से लोगों को बेदखल करने की खुली धमकी है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी

(माकपा) के वरिष्ठ नेता एमवाई.

तारिगामी ने भी जम्मू-कश्मीर

प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा

कि सरकारी कर्मचारी होने का

मतलब नागरिक के रूप में मिले

सभी वैध संवैधानिक अधिकारों को

ठेकेदारों को काली सूची में डालना

हो या कर्मचारियों को सोशल

मीडिया इस्तेमाल करने से रोकना, जम्मू-कश्मीर में लोगों को आजीविका से बेदखल करने का

एक स्पष्ट खतरा सामने आया है।

लोगों के मौलिक अधिकारों का पूरी

तरह से हनन करते हुए अधिकारी

इंसाफ के ठेकेदार और जल्लाद बन

को उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में

अपने विचार व्यक्त करने से रोकना

उनके मूल अधिकारों को छीनने के

समान है। उन्होंने कहा, 'उन्हें

नागरिक माना जाना चाहिए, न कि

प्रजा।' माकपा नेता ने कहा कि

कर्मचारी गुलाम नहीं हैं।

गोसेवा

आयोग के

लिए विधेयक

पारित

मुंबई, 25 मार्च

महाराष्ट्र विधान

परिषद ने गायों

(भाषा)।

और अन्य

मवेशियों के

संरक्षण, सुरक्षा

और कल्याण

को लेकर

तारिगामी ने कहा कि कर्मचारियों

मुफ्ती ने ट्वीट किया, 'चाहे

छोड़ देना नहीं है।

गए हैं।'

श्रीनगर, 25 मार्च (भाषा)।

फैबइंडिया लिमिटेड (पूर्व में फैबइडिया ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड के रूप में ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट न. : 10, लोकलू शॉपिंग कॉम्लेक्स, सेक्टर बी पॉकेट-7, वंसत कुज, नई दिल्ली-110070, फोन : +91-11-46041700, CIN : U74899DL1976PLC008436

ई-मेल : mailus@fabindia.net, वेबसाइट : www.fabindia.com अतिविशिष्ट आम बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

फॅबइंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती फॅबइंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ज्ञात) (कंपनी) की अतिविशिष्ट आम बैठक ('ईजीएम') मंगलवार, 18 अप्रैल, 2023 को अप. 4.00 बजे आईएसटी ऑडियो विडियो मृध्यमां से आयोजित की जाएगीं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 एवं 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 ("परिपर्जा") व अनुपालन में कंपनी को ऑडियो विडियो माध्यमों से ईजीएम आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। इसलिए ईजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए कंपनी की ईजीएम ऑडियो विडियो मध्यमां से आयोजित की जा रही है।

परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को मेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी के पास पंजीकृत हैं। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.fabindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉर्जिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी जपलब्ध है। ई-मेल के माध्यम से ईजीएम की सूचना मेजने का कार्य 25 मार्च, 2023

कट-ऑफ तिथि 11 अप्रेल, 2023 को भीतिक प्रारूप या विमेटिरियलाइण्ड प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्वगण रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम के

दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निधारित व्यवसाय पर अपना वोट दे सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध । कि वे सुश्री मोनिका उप्पल अरोड़ा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी र

+91-9313942073 या monika.uppal@fabindia.net या stakeholders@fabindia.net पर सम्पर्क करके कंपनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि: इंजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन रिमोट ई-वोटिंग य

ईजीएम में ई-⁻वोटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जा सकता है; रिमोट ई-बोटिंग अवधि शनिवार, 15 अप्रैल, 2023 को प्रांत : 9.00 बजे आईएसटी प्रारंभ होगी

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 17 अप्रैल, 2023 को साथ 5.00 बजे आईएसटी समाप्त होगी.

रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने हेत् वोग्यता निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि 11 अप्रैल, 2023 है; 17 अप्रैल, 2023 को साथ 5,00 बजे आईएसटी के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा:

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और ईजीएम की सूचना मेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 11 अप्रैल, 2023 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पुर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि यदि व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए एनएसढीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर

सदस्यगण कृपया नोट करें कि: क) वोटिंग के लिए उपरोक्त कथित तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल इटा लिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी, ख) ईजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी और ऑढियो विढियो मध्यम से ईजीएम में उपरिश्वत सदस्य जिसने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तायों पर अपना बोट नहीं दिया है और अन्वथा उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वह ईजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना बोट दे सकता है; और ग) ईजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चुका सदस्य १ हैजीएम में जैपरिथत हो सकता है लेकिन उसे दोबारा अपना बोट देने की अनुमति नहीं होगी, और घ) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सर्दस्यों के रजिस्टर में दर्ज होगा केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही इंजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है।

viii. ईजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है. उनके लिए रिमोटली बोट देने की प्रक्रिया ईजीएम की सूबना में दी गई है। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

र्ड-बोटिंग से जबी किसी भी पृछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग युजर मैनुअल को अवलोकेन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या श्री अनुभव सक्सेना को evoting@nsdl.co.in पर

ऑडियो विडियो माध्यम से बैठक में एक्सेस एवं भागीदारी के संबंध में किसी मोबाइल न. +918450922029 या ई--मेल आईडी vishwambhar redkan@fabindia.net पर सम्पर्क कर सकते हैं।

निवेशक मंडल के आवेशानुसार कुलो फैंबइंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैन्ड्रंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जात) हस्ता./-मोनिका उप्पल् अरोडा स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी एम. न. ए-17485

यू.पी. को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडेरेशन लि., नानौता डिस्टिलरी यूनिट, नानौता (सहारनपुर) ई—मेल nntdistillery@yahoo.co.in

निविदा सूचना

इस आसवनी द्वारा **कोटनलडिहाईंड एवं डेनोटोनियम बेन्जोएट की आपूर्ति** हेतु प्रतिष्ठित एव व्यापार कर में पंजीकृत फर्मों से ई-टैण्डर के माध्यम से दिनांक 01.04.2023 तक निविदारे आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को सभी **निविदा से सबन्धित टैन्डर फार्म शुल्क रू० 590/-प्रति टैण्डर और धरोहर धनराशि रू० 20000.00** यू०पी० को—आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडेरेशन लि०, नानौता डिस्टिलरी युनिट, नानौता (सहारनपुर) के **पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0** 3726000102068647, **आई०एफ०सी०कोड PUNB**0372600 में ऑन लाइन जमा कराकर जमा रसीद में फर्म का नाम व इस्ताक्षर अंकित कर निविदा के साथ अपलोड करना तथा अपलोड करने के उपरान्त निविदा खोलने की तिथि से पूर्व आसवनी में कैशियर के पास प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निविदा से संबन्धित अन्य विस्तृत विवरण **दिनांक 25.03.2023 को सांय 6 30 बजे** से website etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। अधोहस्ताक्षरी को किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बगैर कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रधान प्रबन्धक

◆ Edelweiss

सीआईएनः U67100MH2007PLC174759 पंजीकृत कार्यालयः एडलवेस भवन, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098 +91 22 4088 6090/6620 3149

एडलवेस एसेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

परिशिष्ट IV—ए [नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित नियम 8(6) का प्रावधान देखें| अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्ति के ई-नीलामी विक्रय की सार्वजनिक सूचना। एतदद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता एवं गारंटर को सूचित किया जाता कि यहां इसमें निम्न विवरणित अचल संपत्ति ("प्रतिभृत परिसंपत्ति"), जो ईएआरसी ट्रस्ट एससी-30 ("ईएआरसी") के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत् एडलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पास बंधककृत है, जिसका भौतिक अधिग्रहण 31 अक्टूबर 2022 को ईएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 13 अप्रैल 2023 को दोप. 12.00 बजे ई—नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। यह विक्रय वेबसाइट/पोर्टल https://edelweissarc.auctiontiger.net पर ई-नीलामी एजेंसी मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ, ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'', ''वहां जो कुछ भी है'' और ''बिना संसाधन'' आधार पर किया जायेगा, जो कि केएलजी सिस्टेल लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत) ("ऋणकर्ता" तथा श्री कुमुद गोयल और सुश्री पुष्पा लता गोयल ("गारंटरगण") की ओर से, ईएआरसी के 23 अगस्त 2022 के अनुसार देय, रु. 505,29,95,872.25 / – (रुपये पांच सौ पांच करोड़ उनतीर लाख पिचानबे हजार आठ सौ बहत्तर एवं पच्चीस पैसे मात्र) की कुल देयराशि का राशि पर संविदागत दरों पर नियत ब्याज तथा अन्य लागतों व व्ययों की वसूली करने के लिये होगा। प्रतिभूत परिसंपत्ति, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का विवरण

प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण

भूमि के औद्योगिक भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जो भूखंड सं. 24 के रूप में विद्यमान हैं जिनक अधिमापन 1000 वर्ग मीटर है जो सेक्टर–18, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित और वहां उस पर विद्यमान समस्त भवनों / संरचनाओं (कुल निर्मित संरचना— 15,750 वर्ग फुट) के साथ और निम्नानुसार परिसीमित है: उत्तर- एक्सेस रोड, दक्षिण- भूखंड सं. 22, पूर्व- एक्सेस रोड, पश्चिम- भूखंड सं. 23

धरोहर राशि जमाः | रु. 1,14,75,000 / -

हस्ता./

-11 11 -11 -11	4. 11, 11, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
E1 19	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
साइट निरीक्षण	29-03-2023 से 10-04-2023 तक 11.00 बजे से 4.00 बजे के मध्य
प्रलेख सत्यापन	03-04-2023 से 10-04-2023 के मध्य आगत कार्यदिवसों पर
बोली प्रलेख क्रय	10-04-2023 से 11-04-2023 के मध्य आगत कार्यदिवसों पर
धराज राशि भुगतान	12-04-2023 को 2 बजे तक
बोली प्रलेख जमा करने अंतिम तिथि	ने की 12-04-2023 को 5 बजे तक
ई—नीलामी विक्रय प्रारं की तिथि	म होने 13-04-2023 को 12 बजे
बैंक विवरण	खाता सं.: 0004103000054719, आईएफएससी नं: IBKL0000004 आईडीबीआई बैंक, मित्तल कोर्ट, नरीमन प्वाइंट, मुंबई

नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्था www.edelweissarc.in/Propertysale पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

दिनांक : 26-03-2023 प्राधिकृत अधिकार्र स्थान : मुंबई

(a) pnb Housing

Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए ई-नीलामी- अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सुचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ८(६) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय भास्तियों के प्रतिभूतिकरण एवंपुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

अधिकारी का संपर्क विवरण 7506642534, Meghraj.deshmukh@edelweissarc.in

पंजीकृत कार्यालय : ९वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, २२, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-११००१ दुरभार्ष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com शाखा कार्यालय: भवन सं. एस-८, उपहार सिनेमा कॉम्पलेक्स, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-११००१६ शाखा कार्यालय: शवीं मंजिल डीसीएम बिल्डिंग, १६, बाराखंभा रोड, कर्नोट प्लेस, नई दिल्ली - ११०००१

निम्नानुसार प्रस्तुत है :

आरक्षित मुल्यः । रु. 11,47,50,000 / - ।

शाखा कार्यालय : दिल्ली हरिद्वार मेन रोड, अरबिंदो आश्रम के बगल में, रानीपुर मोड, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार - 249407 तद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कॉलम ए में अंकित कर्जदार(री) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभावित कॉलम ही में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका रचनात्मक भोतिक कब्जा (जैसा कॉलम सी में वर्णित है) मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, निम्नलिखित विवरणों के अनुसार उसकी बिकी '**जहाँ है जैसे है, जो है यही है और जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर** की जाएगी। एतद्वारा अब तक संशोधित प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के तहत कॉलम अ में अंकित कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/

शाखा कार्यालय : यजी पत्होर एसजी बीटा टॉवर, प्लॉट नं. १०, सेक्टर-३, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)-२०१०११

शाखा कार्यालय : एच-१ए/१०, प्रथम तल, सेक्टर-६३, नीएडा-२०१३०१

ऋण सं./कर्जदार/ सह-कर्जदार/जमानती(यों) विधिक उत्तराधिकारियों के नाम (A)	मांगकृत राक्षि तथा तिथि (B)	कब्जे की प्रकृति (c)	बंधक सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (E)	ईएमडी (आरपी का 10%) (F)	संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि (G)	संविदा वृद्धि दर (H)	निरीक्षण की तिथि एव समय (1)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	ज्ञात ऋण भार/कोर्ट केस, यदि कोई (K)
HOU/GRP/0515/220282 श्री महेंद्र सिंह (कर्जदार) और श्री यजुवेंद्र सिंह (सह-कर्जदार) शा.का.: ग्रीनपार्क	ह. 13,99,115.70 तक 31.03.2021	(भौतिक)	फ्लेट नंबर-१८, पॉकेट-५, चौथी मंजिल, संक्टर-३५, एलआईजी, क्लॉक-बी १४, रोहिणी दिल्ली -११००८९	इ. 10,24,000/-	ह. 1,02,400/-	12.04.2023	रू. १०,०००	06.04.2023 को सुबह 11.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक	13.04.2023 को सुबह 10.30 बजे से शाम 02.00 बजे तक	निल/ ज्ञात नही
HOU/DEL/0119/642261 श्री परिवेश कुमार (कर्जदार), श्रीमती पुष्पा भारद्वाज (सह-कर्जदार) शा.का.: दिल्ली	रू. 29,56,407.14 तक 18.04.2022	(भौतिक)	पर्लेट नंबर 1002, 10वीं मंजिल, टावर एफ, ऑक्सी होम्ज, भोपुरा, गाजियाबाद, 3. प्र 201010	ਲ. 25,33,000/-	あ. 2,53,300/-	12.04.2023	रू. 15,000	06.04.2023 को सुबह 11.30 वजे से शाम 04.00 बजे तक	13.04.2023 को सुबह 10.30 वजे से शाम 02.00 वजे तक	निल/ जात नही
००१६६६०००२६०९ नजर मोहम्मद (कर्जदार), जुल्फिकार अली (सह-कर्जदार) और रहिमुदीन ब्राम (जमानतदार) शा.का.: नोएडा	रू. 19,92,685.00 तक 23.01.2017	(भौतिक)	फ्लैट नंबर-एम-५/६०४, ब्लॉक-ही, क्लासिक रेजिडेंस, राज नगर एक्सरेक्षन, गाजियाबार, उ.प्र२०१०१७ , क्षेत्रफल १९९५ वर्ग फीट।	あ. 13,13,000/-	あ. 1,31,300/-	12.04.2023	ह. 10,000	06.04.2023 को सुबह 11.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक	13.04.2023 को सुबह 10.30 बजे से शाम 02.00 बजे तक	लगभग १९ लाख विल्डर का अधिशेष
HOU/NOI/0417/372690 अजय कुमार यादव (कर्जदार) सुनीता यादव (सह-कर्जदार) शा.का.: मेएडा	रू. 13,77,885.20 तक 16.06.2021	(भौतिक)	के-11/सी-919, नौवां तल, कोयल एन्क्लेव, गानियाबाद, उत्तर प्रदेश- २०१०१२	ਨ. 17,10,000/-	ह. 1,71,000/-	12.04.2023	रू. 10,000	06.04.2023 को सुबह 11.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक	13.04.2023 को सुबह 10.30 बजे से शाम 02.00 बजे तक	गिल/ ज्ञात गर्ह
HOU/HWR/1020/823322 मनोज कुमार (कर्जदार) और लक्ष्मी देवी (सह-कर्जदार) शा.का.: हरिद्वार	ह. 17,65,977.69 (रूपये सत्रह लाख पेंसठ हजार नौ सो सतहत्तर एवं उनहत्तर पेसे मात्र) 03,08,2021 तक	(भौतिक)	क्रसरा नंबर १७६६, कृष्णा नगर, गली नंबर 20, माप क्षेत्र ५०९.८८ वर्ग फीट, सलेमपुर राजपुतान, परगना भगवानपुर, तहसील ठड़की में स्थित, जिला-हरिद्वार, उत्तराखंड २४७६६७ , सीमाबद्ध: पूर्व-15 फीट चोड़ी सड़क, एसएम १४ फीट, पश्चिम- टाइगर और अन्य की संपत्ति, एसएम १४ फीट, उत्तर- श्रीमती उषा कश्यप का खाली प्लॉट, एसएम 36 फीट ४ इंच, दक्षिण- श्रीमती उषा कश्यप	15,30,000/-	丧. 1,53,000/-	28.04.2023	ह. 10,000	24.04.2023 को सुबह 11.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक	01.05.2023 की सुबह 10.30 बजे से शाम 02.00 बजे तक	गिल/ ज्ञात गही

*साथ ही 18% की दर से यथाप्रयोज्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि जो भुगतान तथा/अथवा उसकी वसूली की तिथि तक हुए हैं। ** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान में कॉलम सं. K में प्रकटित को छोड़कर उपर्यक्त अचल/प्रतिभत आस्तियों के सन्दर्भ में कौई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं। पन: ऐसे ऋण भार सफल केता/संविदाकार द्वारा अपने दायित्व पर दिये/अदा किये जायेंगे। सम्भावित केता(ओं)/संविदाकारों से उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता स्वतन्त्र रूप से सुनिश्चित करने का निवेदन है।

अब तक उपर्युक्त अवल सम्पत्तियाँ/प्रतिभूत आस्तियाँ की बिक्री, एलिनिएट करने तथा/अथवा निस्तारण से पीएनबी एचएफएल/पीएनबी एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी को प्रतिबन्धित करने का कोई आदेश तथा/

का खाली प्लॉट, एसएम ३६ फीट ६ इंच

सम्भावित केता/संविदाकार तथा इच्छुक पार्टियां पीएनबी एचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व के दस्तावेजों से सम्बन्धित या स्वामित्व सहित कॉलम-इ में उल्लिखित कार्यवाही/पारित आदेश आदि में मुकदमें रे सम्बन्धित स्वतन्त्र निरीक्षण कर सकती हैं और अपनी निविदा/संविदा आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव करने से पूर्व सभी पक्षों में स्वयं को सन्तष्ट कर सकती हैं। संविदाकार(रों) को संविदा प्रपत्र के साथ इस नीलार्ग

कपया ध्यान दें कि प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ९(३) के सन्दर्भ में संविदाकार/क्रेता बिक्री मुल्य का २५% (जमा धरोहर राशि, यदि कोई हो, सहित) उसी दिन या या अधिकतम अगले दिन जमा करने के लिए बाध्य होगा। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ९(२) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मुल्य के २५% राशि की प्राप्ति के बाद ही संविदाकार(रॉ) के पक्ष में पृष्टि की जायेगी। बिक्री मल्य का क्षेत्र 75% राशि बिकी की पेंष्टि पत्र की पावरी की रिथि से 15 दिनों के भीतर केना ड्रांटा जमा किया जाना है और इस राशि को जमा करने में चक करने पर सम्पत्ति/प्रतिभति आस्ति की पन बिकी की जायेगी। मेसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता का नामोल्लेख करें) ई-नीलामी के माध्यम से विक्री संचालित करने वाले अधिकृत प्राधिकारी की सहायता करेंगे जिसका कॉपॉरेंट कॉर्यालय प्लॉट नें. ६८, उसरा तल, सेक्टर

४४, गुरुग्राम, हरियाणा-122003, वेबसाइट : www.bankeauctions.com है। सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा संविदा दस्तावेज प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी सहायता तथा किसी अन्य पूछताछ या पंजीकरण हेतु आप सम्पर्के करें :, ई-मेल : anoop.kumarl@pubhousing.com तथा मोबाइल नं. : 9289699724 जो पीएनपीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति हैं अथवा या www.pnbhousing.comका सन्दर्भ लें। स्थान : ग्रीनपार्क, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हरिद्वार, तिथि : 25.03.2023 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनवी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आईबीसी, 2016 के अंतर्गत ई—नीलामी विक्रय सूचना

मैसर्स दुगल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत) की आईबीसी, 2016 के अंतर्गत विक्रय सूचना

CIN:U26960DL1998PTC092946 पंजी. कार्या: एफ-38/2, (मारुति सर्विस स्टेशन के समीप), ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-।। नई दिल्ली-110020

परिसमापक का कार्यालयः बी-2/42, सेक्टर-18, रोहिणी, दिल्ली-110089 माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण, न्यायालय $-\mathrm{IV}$, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा मैसर्स

दुगल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत) की परिसंपत्तियों का विक्रय। भूमि एवं भवन का विक्रय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई—नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से किया जायेगा।

विवरण	ई—नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (आईएनआर)	धराज राशि	बोली वृद्धिशील मूल्य
भूमि और भवन (क्षेत्रफल 600 वर्ग गज) एफ—38/2, (मारुति सर्विस स्टेशन के समीप), ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज—11, नई दिल्ली—110020	दिनांकः 10 / 04 / 2023 समयः अप. 3.00 से सायं 5. 00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 5,35,00,000 / – (रुपये पांच करोड़ पैंतिस लाख मात्र)	रु. 55,00,000 / — (रुपये पचपन लाख मात्र)	रु. 1,00,000 / – (रुपये एक लाख मात्र)

निरीक्षण की तिथि : दिनांक 08/04/2023 को अप. 2.00 बजे तक, परिसमापक से पूर्व नियुक्ति प्राप्त कर। **ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि :** 08 / 04 / 2023 को सायं 5.00 बजे तक।

प्रस्तावित नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं: . . ई—नीलामी ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'', ''जो भी आधार है'' और ''बिना संसाधन आधार'' पर आयोजित की जाएगी

क्योंकि इस तरह का विक्रय, अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (https://ncltauction.auctiontiger.net) के माध्यम से, किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। भूमि और भवन के लिए बोली, परिसमापक के पास निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। संपूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियमों और शर्तों के साथ बोली प्रपत्र https://ncltauction.auctiontiger.net की वेबसाइट से

nclt@auctiontiger.net / support@auctiontiger.net परिसमापक को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थिगित / निरस्त / समाप्त करने या किसी भी चरण में ई-नीलामी से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का

डाउनलोड किया जा सकता है। संपर्क : श्री प्रवीण 91-9722778828, ईमेल: praveen.thevar@auctiontiger.net,

विक्रय. ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत विरचित विनियमावली के अधीन होगा

प्रदीप उपाध्याय परिसमापक, दुगल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

(परिसमापन के अंतर्गत कंपनी)

आईपी पंजीकरण सं: IBBI/IPA-001/IP-P01415/2018-19/12233 मोबाइलः 9811130194, ईमेलः pradeepupadhyayibbi12233@gmail.com

दक्षिण रेलवे वर्क्स ब्रांच मदुरै डिवीजन

निविदा सूचना सं. एमडीयू—डब्ल्यू—05—2023 दिनांकित 24.03.2023

मंडलीय रेलवे प्रबंधक / वर्क्स / दक्षिण रेलवे / मदुरै द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। मद क्रमांक 1 से 04 तक के लिये निविदा की अंतिम तिथि 17.04.2023 को 14.00 बजे तक है। क्र.सं. कार्य का नाम

	तेनकासी — कोल्लम अनुभागः— सीनियर सेक्शन इंजीनियर / स्थायी मार्ग / पुनालुर अनुभाग में इदापलायम और तेनमलाई स्टेशनों के मध्य आरडीएसओ तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार कर्व्स (हाइड्रोलिक टाइप) पूर्ण प्रणाली पर गेज फेस लुब्रिकेटर्स की आपूर्ति, संस्थापना और प्रचालनारंभ, 6 नंबर।
2	एडीईएन/साउथ/सब डिवीजन:— दो वर्षों की एकाविध के लिये एमडीयू—एमईजे अनुभाग (एसएसई/पी.वे/वीपीटी) में एलसी संख्या 367, 370, 373, 379, 382, 384, 388, 393, 395, 407, 410, 411, 414, 416 व 425 (15 नग) तथा वीपीटी—टीएसआई अनुभाग (एसएसई/पी. वे/एसवीकेएस) में एलसी संख्या 411, 416, 420, 421, 430, 433, 437, 439, 443, 445, 454, 455, 459, 465, 469, 470 व 471 (17 नग) के स्थान पर निर्मित सीमित उपयोग वाले सबवेज में डीवाटरिंग, डिसिल्टिंग, विलयरिंग वाटर कोर्सेज इत्यादि का वार्षिक अनुरक्षण कार्य।

मानामद्रै-रामेश्वरम अनुभागः सीरियर सेक्शन इंजीनियर / परमानेंट वे / मंडपम अनुभाग में मंडपम और रामेश्वरम स्टेशनों के मध्य मेन लाइन में किमी: 657.200 से 668.000 के बीच अलग-अलग स्थानों पर किमयों को पूरा करने के लिए लीडिंग और स्प्रेडिंग सहित ट्रैक के समानांतर 50एमएम मशीन क्रश्ड स्टोन बल्लास्ट का प्रस्तावित संग्रहण और आपूर्ति।

तिरुनेलवेली जंक्शन:- तिरुनेलवेली स्थायी मार्ग अनुभाग में तिरुनेलवेली यार्ड में पिट लाइन पर विभिन्न लूप लाइनों पर 7.082 किलोमीटर और 2.073 किलोमीटर की एक लंबाई के लिये रेल नवीनीकरण (माध्यमिक) के माध्यम से प्रस्तावित

अनु. मूल्य रु. लाख में समापन अवधि 41.95 83900 24 माह 69.86 139700 6 माह 118,54 209300 10 माह 310.44 305200

अधिक जानकारी वेबसाइट https://www.ireps.gov.in पर विस्तार से उपलब्ध है। मदुरै डिवीजन में कार्यों के लिए ई-निविदा हेत् आवेदन करने के लिए निविदक(कों) / ठेकेदार(रों) को ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in में नामांकित होने की आवश्यकता है और केवल ऑनलाइन निविदायें स्वीकार्य होंगी। यह निविदकों का उत्तरदायित्व है कि वेबसाइट में आज के बाद अपलोड किये गये किसी भी सुधार या संशोधन हेत् निर्गत किसी भी शुद्धिपत्र की जांच-पड़ताल करते रहें, निविदा जमा करते समय इसे ही ध्यान में रखा जायेगा।

> मंडलीय रेलवे प्रबंधक (वक्सी) मद्रै (भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से)

Follow us on : w twitter.com/GMSRailway

Chola Whilst care is taken prior to

IMPORTANT"

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

निगमित कार्यालय : नं. 2, डेयर हाउस, प्रथम तल, एनएससी बोस रोड, चेन्नई–600001, शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, भूखंड सं. 6, मुख्य पूसा मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005, संपर्क नं: श्री सुधीर तोमर, मोबा

विषयः नियम 8(6) के अंतर्गत निर्गत नीलामी सूचना दिनांकित 23.02.2023 - ऋण खाता संख्याओं X0HEEDL00001411414 एवं X0HEEDL00001728906 की वापसी

held responsible for such contents, nor for any loss or (ऋण खाता संस्था X0HFFDI 00001411414 एतं damage incurred as a result of X0HEEDL00001728906 transactions with companies, मकान नं: एफ—11, द्वितीय तल एवं तृतीय तल, ब्लॉक—एफ, ग्रीन पार्क एक्स., नई दिल्ली—110016 associations or individuals 2. नीरू वर्मा उर्फ नीरू वर्मा मकान नं.ः एफ—11, द्वितीय तल एवं तृतीय तल, advertising in its newspapers ब्लॉक-एफ, ग्रीन पार्क एक्स., नई दिल्ली-110016 or Publications. We therefore मकान नं. एफ–11, द्वितीय तल एवं तृतीय तल, ब्लॉक–एफ, ग्रीन पार्क एक्स., नई recommend that readers अन्य पता यह भीः चंदन कुमार पन्ना लाल वर्मा, 1033/14, गली मीरा चंद, मालीवाड़ा चांदनी चौक नई दिल्ली नई दिल्ली-110006 make necessary inquiries मकान नं: एफ-11, द्वितीय तल एवं तृतीय तल, ब्लॉक-एफ, ग्रीन पार्क एक्स., नई before sending any monies or

नंपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिनकी माप 200 वर्ग गज है संपत्ति सं. एफ–11 के रूप में ऊपर और उसके ऊपर के द्वितीय त तथा तृतीय तल के संपूर्ण टेरेस अधिकार (संपूर्ण द्वितीय तल छताधिकार के साथ) जो ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित तथ निम्नानुसार परिसीमित हैः पूर्व– सड़क, पश्चिम– लेन, उत्तर– भूखं सं. एफ-10, दक्षिण- भूखंड सं. एफ-12।

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त ऋण खाता के लिये नियम 8(6) के अंतर्गत 23.02.2023 को निर्गत नीलामी सूचना एतद द्वारा वापस ली जाती है। यहां यह वर्णित करना उपयुक्त है कि सूचना को सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक प्रतिभृत ऋणदाता के रूप में नई नीलामी सूचना निर्गत करने के चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना वापस लिया जा रहा है।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी स्थान : दिल्ली / राराक्षे. दिनांक : 26–03–2023. चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

चोलामंडलम इवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड Chola 🏖 निगमित कार्यालय : प्रथम तल, 'डेयर हाउस', नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001

7/3, शिवम टॉवर, द्वितीय तल, न्यू कैंट रोड, हाथी बरकला, देहरादून (उत्तराखंड) - 248001 शाखा कार्यालयः द्वितीय तल, खसरा नं. 945, रेलवे रोड, ज्वालापुर, ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के सम्मुख, हरिद्वार (यू.के.) - 249407 शाखा कार्यालयः समान नं. 4/4, द्वितीय तल, बालाजी टॉवर, भगवान मोटर्स के समीप, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) - 247001

अधिग्रहण सूचना - नियम 8(1) के अंतर्गत

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **मैसर्स चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत ''अधिनियम'' के रूप में संबोधित) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, मांग सुचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें उधारकर्ताओं, जिनके नाम निम्न स्तंभ (ख) में निदर्शित किए गए हैं, को निम्न स्तंभ (घ) में उल्लेखित बकायाँ राषि का राशि पर ब्याज के साथ निम्न स्तंभ (ग) में विनिर्दिष्ट तिथियों पर, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न स्तंभ (ड.) में विवरणित कंपनी के पास

बंधककृत संपत्तियों का, उक्त नियमावली के अंतर्गत विरचित नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न स्तंभ (च) में अंकित संबंधित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि निम्न स्तंभ (ङ.) में वर्णित संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा इस प्रकार का कोई भी लेन–देन, ब्याज एवं अन्य शूल्कों के साथ निम्न स्तंभ (घ) में अंकित एक राशि हेत् **मैसर्स**

चोलामंडलम इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत, उधारकर्तागण विक्रय की अधिसूचना से पूर्व समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों सहित संपूर्ण बकाया देयराशि का भुगतान करके प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़वा सकते हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता/ओं के नाम एवं पते तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अधिग्रहीत संपत्ति के विवरण	सांकेतिक अधिग्रहण की तिथि
क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ভ.)	(च)
1.	ऋण संख्या X0HESRH00001847531 एवं HE02SRH00000006085 उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्ता 1. आकृति अरोड़ा पत्नी योगेश कुमार गौतम 2. योगेश कुमार गौतम पुत्र महेंद्र पाल सिंह 3. मिलिंद गौतम पुत्र महेंद्र पाल सिंह 4. रेणु सिंह पत्नी महेंद्र पाल सिंह 5. वैशाली गौतम पुत्री महेंद्र पाल सिंह 6. मैसर्स दीक्षा कोचिंग सेंटर, अपने स्वामिनी	14.12.2022	रु. 51,29,293/- दिनांक 30/11/2022 के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज तथा शुल्क	आवासीय संपत्ति, निजी भूखंड संख्या 34 का दक्षिणी हिस्सा, माप 300 वर्ग गज अर्थात् 250.83 वर्ग मीटर जो वाका दारा पठानपुरा परगना तहसील एवं जिला सहारनपुर में स्थित तथा बिक्री विलेख के अनुसार बही नंबर 1, खंड 193, पृष्ठ 801–812, प्रलेख संख्या 1525 पर दिनांक 12–06–1997 को पंजीकृत है।	22.03.202
	(आकृति अरोड़ा) के माध्यम से निवासीः मकान नं. के समीप, थाना कोतवाली सदर, तहसील सहारन 7. आकृति अरोड़ा पुत्री राजेश अरोड़ा अन्य पता यह भीः मकान नंबर 397, गली शिव 8. योगेश कुमार गौतम पुत्र महेंद्र पाल सिंह अन्य पता यह भीः निवासी— मकान नं. 1/435 9. वैशाली गौतम पुत्री महेंद्र पाल सिंह अन्य पता यह भीः पलैट नं. 601, नटराज सी (मुलुंद/पश्चिम) मुंबई 400080	पुर — उत्तः । मंदिर, नय :2, अशोकः	र प्रदेश 247001 ग्रा बांस, दिल्ली वि	जी.पी.ओ, उत्तरी दिल्ली — 110006 एक्सटेंशन शाहदरा, दिल्ली 110032	

HDFC BANK प्लॉट # 31, नजफगढ़, इंडस्ट्रियल एरिया, टावर-ए, 1ला तल, शिवाजी मार्ग, मोती नगर् परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] We understand your world नई दिल्ली-110015 जैसा कि, वित्तिय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लि**. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप मे

तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों कों उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ग्राहक का नाम सम्पत्ति का विवरण

1. मै. कासना इंण्डेन गैस सर्विस, द्वारा उसके पार्टनर्स : श्रीमती फ्लैट नं. 266-सी, दूसरा तल, प्लिन्थ एरिया माप 1300 वर्ग फीट जो 13 (2) सूचना तिथि: 11 01.2023

वन्दना सिंह, श्रीमती साक्षी शर्मा एवं श्री गोपाल कृष्ण, 2. श्रीमती सेक्टर-29, नोएडा जिला गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है

वन्दना सिंह, पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह, 3. श्रीमती साक्षी शर्मा, पत्नी श्री (सम्पत्ति के स्वामी : श्रीमती वन्दना सिंह स्थानः नोएडा, गौतम बुध नगर (उ.प्र.) गोपाल कृष्ण, 4.4. श्री गोपाल कृष्ण, पुत्र श्री दया चंद शर्मा 1. श्रीमती मनमीत कौर अलग, पत्नी श्री गुरविन्दर सिंह अलग, 2. जनकपुरी आवासीय योजना, जनकपुरी के नाम से विदित, नई दिल्ली 13 (2) **सूचना तिथिः** 11 01.2023 श्री हरविन्दर सिंह अलग, पुत्र श्री जोध सिंह अलग, 3. श्री गुरविन्दर की ले आउट योजना में स्थित सम्पत्ति सं. ए-1/251 में भूतल (स्वतंत्र सूचना राशिः रु. 17,72,424/-यूनिट) का फ्रान्ट साइड भाग (सम्पत्ति के स्वामी श्री हरविन्दर सिंह) कब्जा तिथि: 24.03.2023 सिंह अलग, पुत्र श्री हरविन्दर सिंह अलग चौहद्दी इस प्रकार है : उत्तर : सर्विस लेन, पूर्व : प्लॉट नं. 252, दक्षिण स्थानः जनकपुरी (नई दिल्ली)

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त ,शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उपरोक्त राशि तथा उसपर ब्याज के साथ प्रदत्त राशि, यदि कोई हो, को घटाकर खर्चे तथा चार्जेज आदि के लिये एचडीएफसी बैंक लि. े के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी एचडीएफसी बैंक लि. तिथि : 26.03.2023

IndiaShelter **Home Loans**

दिनांक: 26 मार्च, 2023

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26/03/2023

स्थान : दिल्ली

इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय :प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002,

शाखा कार्यालय : दुकान नं. 6, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, सी.आर. मॉल, चर्च रोड, राम नगर कॉलोनी, आगरा-282002 अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डिया शेल्टर

फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों तथा सम्पत्ति के स्वामी से/आश्वस्ति कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहाँ आगे उल्लिखित खाते के सम्मुख लिखित तिथि पर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी। जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी तथा अन्य राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्निलखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग मे नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। अब कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागतों आदि के लिए इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

विवरण (निम्नलिखित से निर्मित

	तथा ऋण खाता संख्या		तक बकाया राशि	तिथि
1	श्रीमती भूरी देवी पत्नी तारा सिंह खसरा नंबर-389 महादेव नगर, उक्खरा, आगरा उत्तर प्रदेश- 282001 लोन नंबरः LA28CLONS000005003655/ AP- 0984439	खसरा नंबर – 389, एरिया 111.85 वर्ग मीटर, मौजा उक्खरा आगरा यूपी –282001 में संपत्ति वाले भूखंड का समस्त भाग। संपत्ति की सीमाएं: पूर्व- बाबू राम सिंह का प्लॉट, पश्चिम-अजय बाबू की शेष भूमि और रास्ता 5.48 मीटर चौड़ा, उत्तर-अन्य भूमि, दक्षिण- भूदेव कटारा का प्लॉट	 रु. 409216.99/- (रुपये चार लाख नौ हजार दो सौ सोलह एवं निन्यानबे पैसे मात्र) 31/07/21 को देय साथ में 01/08/21 से 	
स्थ	ान : उत्तर प्रदेश, तिथि : 25.03.2023	इण्डिया शेल्टर कॉ नए कृपया संपर्क करें : श्री अमित जायसन	पिरिशन फाइनेंस लिमिटेड (अधिकृत	प्राधिकारी)
_	विकसी पूछतीछ के ति	<u> १५ कृपया संपंक कर : श्रा आमत जायसं</u>	alm (+91 9/92/ ///91)	- 9

रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: १४०७, १४वीं मंजिल, चिरंजीव टॉवर,

43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 CIN: L74899DL1984PLC146935, फ्रोन: +91-11-4472 5676

वेबसाइट: www.religare.com, ईमेल: investorservices@religare.com पोस्टल बैलेट का परिणाम १० फरवरी, २०२३ के पोस्टल बैलेट नोटिस के अनुसार, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा (धाराएं) १०८ और ११० और

उसके तहत बनाए गए नियम के साथ पठित और सचिवीय मानक (एस एस -2) इंस्टीट्यंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा आम बैठक और पर जारी किया गया सामान्य परिपत्र सं.14/2020 दिनांक ८ अप्रैल 2020 के संदर्भ में, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांक 5 मई 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 के साथ पठित कॉपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी (**"एमसीए परिपत्र"**) और संवीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, पोस्टल बैलेट का परिणाम (केवल ई-वोटिंग के माध्यम से) शक्रवार, २४ मार्च, २०२३ को घोषित किया गया और स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तत किया गया। पोस्टल बैलेट परिणोंमों का सारांश इस प्रकार है:

विवरण	सुश्री प्रीति मदान (डीआइएन: 08384644) की लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए कप गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विशेष संकल्प				
	पोस्टल बैलेट	ई-वोट	%आयु		
सहमति	अनुपलब्ध	10,64,99,551	99.99		
असहमति	अनुपलब्ध	2,240	उपेक्षणीय		
ਗੁਲ	अनुपलब्ध	10,65,01,791	100.00		

तदनुसार, 10 फरवरी, 2023 के पोस्टल बैलट की सूचना में निर्धारित संकल्प को ICSI द्वारा जारी सचिवीय SS-2 के अनुसार सदस्यों द्वारा अपेक्षित बह्मत के साथ अनुमोदित किया गया और गुरुवार, २३ मार्च, २०२३ को ई-वोटिंग के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि के रूप में पाँरित माना गया।

> निदेशक मंडल के आदेश से कृते रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड

हस्ता/-

रीना जायरा कंपनी सचिव

www.readwhere.com

दिनांक : 26-03-2023

स्थान : दिल्ली

गोसेवा आयोग की स्थापना के लिए शनिवार को एक विधेयक पारित किया। महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार को यह

विधेयक पारित

पशुपालन और

डेयरी विकास

मंत्री राधाकृष्ण

विखे पाटिल ने

विधेयक पेश

किया।

किया था।